

---

**Chhatrapati Shahu JI Maharaj University, Kanpur**

Ph. D. Entrance Examination 2025-26

---

**MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY**

Total Questions: 70 | Marks: 70 | Time: 1.5 hours

---

Roll Number:

Date:

Instructions:

- This question paper consists of **70 multiple choice questions (MCQs)**.
  - It is divided into two sections:
    - **Section A:** Research Methodology
    - **Section B:** Medical Laboratory Technology
  - Each question carries **1 mark**.
  - Total duration: **1.5 hours**
  - **No negative marking** for incorrect answers.
  - Answers should be carefully marked as per instructions provided by the invigilator.
  - Questions are given in **both English and Hindi** for convenience.
  - **In case of any discrepancy between the English and Hindi versions, the English version shall be considered final.**
-

English	हिन्दी
<p>Q1. Which of the following is NOT a type of research?</p> <p>(A) Descriptive Research (B) Experimental Research (C) Observation (D) Correlational Research</p>	<p>प्र1. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है?</p> <p>(A) वर्णनात्मक शोध (B) प्रायोगिक शोध (C) अवलोकन (D) सहसंबंधात्मक शोध</p>
<p>Q2. What is the primary goal of basic research?</p> <p>(A) To solve a specific practical problem.</p> <p>(B) To develop new theories and expand knowledge.</p> <p>(C) To evaluate the effectiveness of a program.</p> <p>(D) To describe the characteristics of a population.</p>	<p>प्र2. मौलिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है?</p> <p>(A) किसी विशिष्ट व्यावहारिक समस्या का समाधान करना</p> <p>(B) नई सिद्धांतों का विकास करना व ज्ञान को बढ़ाना</p> <p>(C) किसी कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना</p> <p>(D) किसी जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करना</p>
<p>Q3. Which research method is best suited for exploring a new phenomenon?</p> <p>(A) Experimental research (B) Correlational research (C) Exploratory research (D) Descriptive research</p>	<p>प्र3. किसी नए परिघटन का अन्वेषण करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन-सी है?</p> <p>(A) प्रायोगिक शोध (B) सहसंबंधात्मक शोध (C) अन्वेषणात्मक शोध (D) वर्णनात्मक शोध</p>
<p>Q4. A key characteristic of quantitative research is that it ...</p> <p>(A) relies on subjective interpretations.</p> <p>(B) uses numerical data and statistical analysis.</p> <p>(C) focuses on meanings and experiences.</p> <p>(D) involves only case studies.</p>	<p>प्र4. मात्रात्मक शोध की एक प्रमुख विशेषता है ...</p> <p>(A) विषयगत व्याख्या पर निर्भर होना</p> <p>(B) संख्यात्मक आँकड़ों व सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग करना</p> <p>(C) अर्थ व अनुभवों पर केंद्रित होना</p> <p>(D) केवल प्रकरण-अध्ययन करना</p>

<p>Q5. Main purpose of descriptive research is ...</p> <p>(A) To establish cause-and-effect.</p> <p>(B) To explore new phenomena.</p> <p>(C) To describe characteristics of a population/situation.</p> <p>(D) To test hypotheses.</p>	<p>प्र०. वर्णनात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है?</p> <p>(A) कारण-फल संबंध स्थापित करना</p> <p>(B) नई घटनाओं का अन्वेषण करना</p> <p>(C) किसी जनसंख्या/स्थिति की विशेषताओं का वर्णन करना</p> <p>(D) परिकल्पनाओं का परीक्षण करना</p>
<p>Q6. Which of the following is an example of a research design?</p> <p>(A) Questionnaire (B) Interview (C) Experimental design (D) Observation</p>	<p>प्र०. निम्न में से कौन-सा शोध डिज़ाइन का उदाहरण है?</p> <p>(A) प्रश्नावली (B) साक्षात्कार (C) प्रायोगिक डिज़ाइन (D) अवलोकन</p>
<p>Q7. The first step in the research process is ...</p> <p>(A) Data analysis</p> <p>(B) Literature review</p> <p>(C) Identifying a research problem</p> <p>(D) Formulating a hypothesis</p>	<p>प्र०. शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण है ...</p> <p>(A) डेटा विश्लेषण</p> <p>(B) साहित्य समीक्षा</p> <p>(C) शोध समस्या की पहचान</p> <p>(D) परिकल्पना तैयार करना</p>
<p>Q8. Main difference between basic and applied research is that basic research ...</p> <p>(A) is more rigorous.</p> <p>(B) focuses on new theories; applied research solves practical problems.</p> <p>(C) is only in a lab; applied in real settings.</p> <p>(D) has no difference.</p>	<p>प्र०. मौलिक एवं अनुप्रयुक्त शोध में मुख्य अंतर यह है कि मौलिक शोध ...</p> <p>(A) अधिक कठोर होता है</p> <p>(B) नई सिद्धांतों पर केंद्रित होता है, जबकि अनुप्रयुक्त शोध व्यावहारिक समस्याएँ हल करता है</p> <p>(C) केवल प्रयोगशाला में किया जाता है</p> <p>(D) दोनों में कोई अंतर नहीं</p>

<p>Q9. The term “qualitative research” refers to research that ...</p> <p>(A) uses numerical data.</p> <p>(B) focuses on meanings &amp; experiences.</p> <p>(C) uses large samples.</p> <p>(D) is always laboratory-based.</p>	<p>प्र9. “गुणात्मक शोध” से आशय उस शोध से है जो ...</p> <p>(A) संख्यात्मक डेटा प्रयोग करता है</p> <p>(B) अर्थव अनुभवों पर केंद्रित होता है</p> <p>(C) बड़े नमूने प्रयोग करता है</p> <p>(D) सदा प्रयोगशाला-आधारित होता है</p>
<p>Q10. Purpose of a literature review is to ...</p> <p>(A) collect data.</p> <p>(B) identify a problem.</p> <p>(C) summarize existing knowledge.</p> <p>(D) analyze study results.</p>	<p>प्र10. साहित्य समीक्षा का उद्देश्य है ...</p> <p>(A) डेटा एकत्र करना</p> <p>(B) समस्या पहचानना</p> <p>(C) विद्यमान ज्ञान को संक्षेपित करना</p> <p>(D) अध्ययन परिणामों का विश्लेषण करना</p>
<p>Q11. Primary purpose of a literature review is to ...</p> <p>(A) collect raw data.</p> <p>(B) demonstrate knowledge of existing research.</p> <p>(C) develop new instruments.</p> <p>(D) write a persuasive argument.</p>	<p>प्र11. साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य है ...</p> <p>(A) कच्चा डेटा एकत्र करना</p> <p>(B) वर्तमान शोध ज्ञान को प्रदर्शित करना</p> <p>(C) नए उपकरण विकसित करना</p> <p>(D) एक प्रभावी तर्क लिखना</p>
<p>Q12. A primary source is best described as ...</p> <p>(A) Textbook summary.</p> <p>(B) Interview with key witness.</p> <p>(C) Article analyzing a novel.</p> <p>(D) Documentary film on discovery.</p>	<p>प्र12. प्राथमिक स्रोत को सबसे अच्छा कैसे परिभाषित करेंगे?</p> <p>(A) पाठ्य-पुस्तक सारांश</p> <p>(B) किसी प्रत्यक्ष गवाह का साक्षात्कार</p> <p>(C) उपन्यास पर विश्लेषणात्मक लेख</p> <p>(D) वैज्ञानिक खोज पर डॉक्यूमेंट्री</p>

<p>Q13. Main function of a literature review in defining a problem is ...</p> <p>(A) to replace primary data.          (B) to identify knowledge gaps.          (C) to give ready-made answers.          (D) to remove need for question.</p>	<p>प्र०13. समस्या निर्धारण में साहित्य समीक्षा का मुख्य कार्य है ...</p> <p>(A) प्राथमिक डेटा की आवश्यकता हटाना          (B) ज्ञान के अंतराल पहचानना          (C) तत्काल उत्तर उपलब्ध कराना          (D) शोध प्रश्न की आवश्यकता समाप्त करना</p>
<p>Q14. Which of these is a secondary source?</p> <p>(A) Diary entry          (B) Survey data analysis article          (C) Photo of an event          (D) Historical letter</p>	<p>प्र०14. निम्न में से कौन-सा द्वितीय स्रोत है?</p> <p>(A) डायरी प्रविष्टि          (B) सर्वे डेटा का विश्लेषणात्मक लेख          (C) किसी घटना का फ़ोटो          (D) ऐतिहासिक पत्र</p>
<p>Q15. A good literature review should ...</p> <p>(A) only support researcher's view.          (B) critically evaluate &amp; synthesize sources.          (C) avoid conflicting findings.          (D) focus on own opinion only.</p>	<p>प्र०15. एक अच्छी साहित्य समीक्षा को चाहिए कि वह ...</p> <p>(A) केवल शोधकर्ता की धारणा का समर्थन करे          (B) विभिन्न स्रोतों का समालोचनात्मक मूल्यांकन व समन्वय करे          (C) विरोधाभासी निष्कर्षों से बचे          (D) केवल व्यक्तिगत राय पर केंद्रित रहे</p>
<p>Q16. Key benefit of secondary sources is ...</p> <p>(A) firsthand accounts.          (B) comprehensive overview.          (C) always unbiased.          (D) no need for primary data.</p>	<p>प्र०16. द्वितीय स्रोतों का प्रमुख लाभ है ...</p> <p>(A) सीधे प्रत्यक्ष विवरण मिलना          (B) विषय का समग्र अवलोकन मिलना          (C) सदैव निष्पक्ष होना          (D) प्राथमिक डेटा की आवश्यकता समाप्त होना</p>

<p>Q17. A research gap is ...</p> <p>(A) data section.          (B) missing info not addressed.          (C) study summary.          (D) list of participants.</p>	<p>प्र० 17. शोध अंतराल (research gap) क्या है?</p> <p>(A) डेटा अनुभाग          (B) कोई अनुत्तरित अथवा अपर्याप्त प्रश्न          (C) अध्ययन का सारांश          (D) प्रतिभागियों की सूची</p>
<p>Q18. Which is NOT a purpose of literature review?</p> <p>(A) Identify key concepts/theories.          (B) Develop research question.          (C) Summarize a single study only.          (D) Provide context for current study.</p>	<p>प्र० 18. निम्न में से कौन-सा साहित्य समीक्षा का उद्देश्य नहीं है?</p> <p>(A) प्रमुख अवधारणाएँ व सिद्धांत पहचानना          (B) शोध प्रश्न विकसित करना          (C) एक ही अध्ययन का सारांश देना          (D) वर्तमान शोध को संदर्भ देना</p>
<p>Q19. In a literature review, synthesizing means ...</p> <p>(A) summarizing each study.          (B) combining information for new understanding.          (C) finding inconsistencies only.          (D) listing most relevant sources.</p>	<p>प्र० 19. साहित्य समीक्षा में “सिंथेसाइज़” करने का अर्थ है ...</p> <p>(A) प्रत्येक अध्ययन का सार प्रस्तुत करना          (B) अनेक स्रोतों को मिलाकर नई समझ बनाना          (C) केवल विरोधाभास ढूँढ़ना          (D) सर्वाधिक प्रासंगिक स्रोतों की सूची बनाना</p>
<p>Q20. A good literature review helps researchers ...</p> <p>(A) avoid all previous research.          (B) justify need for their research.          (C) ignore contradictions.          (D) work without theory.</p>	<p>प्र० 20. एक अच्छी साहित्य समीक्षा शोधकर्ताओं को ...</p> <p>(A) पूर्व शोध से परहेज़ करने में          (B) अपने शोध की आवश्यकता को उचित ठहराने में          (C) विरोधाभासों की अनदेखी करने में          (D) किसी सिद्धांत के बिना कार्य करने में</p>

<p>Q21. Which is NOT a measure of central tendency?</p> <p>(A) Mean          (B) Median          (C) Mode          (D) Standard Deviation</p>	<p>प्र21. निम्न में से कौन-सा मध्य प्रवृत्ति का माप नहीं है?</p> <p>(A) औसत (Mean)          (B) माध्यिका (Median)          (C) बहुलक (Mode)          (D) मानक विचलन</p>
<p>Q22. Primary purpose of descriptive statistics is ...</p> <p>(A) Make inferences.          (B) Summarize &amp; describe dataset.          (C) Test hypotheses.          (D) Predict future outcomes.</p>	<p>प्र22. वर्णनात्मक आँकड़ों का मुख्य उद्देश्य है ...</p> <p>(A) निगमन करना          (B) डेटासेट के मुख्य लक्षणों को संक्षेपित व वर्णित करना          (C) परिकल्पनाएँ परखना          (D) भविष्यवाणी करना</p>
<p>Q23. Which graph represents distribution of numerical data?</p> <p>(A) Pie chart          (B) Scatter plot          (C) Histogram          (D) Line graph</p>	<p>प्र23. संख्यात्मक डेटा का वितरण दिखाने वाला ग्राफ कौन-सा है?</p> <p>(A) पाई चार्ट          (B) स्कैटर प्लॉट          (C) हिस्टोग्राम          (D) लाइन ग्राफ</p>
<p>Q24. Inferential statistics is used to ...</p> <p>(A) summarize with tables.          (B) draw conclusions about population from sample.          (C) describe sample.          (D) visualize data.</p>	<p>प्र24. निगमनात्मक सांख्यिकी का उपयोग ...</p> <p>(A) तालिकाओं से सारांश बनाने में          (B) नमूने से जनसंख्या के निष्कर्ष निकालने में          (C) नमूने का वर्णन करने में          (D) डेटा को ग्राफ में दिखाने में</p>

<p>Q25. A p-value represents ...</p> <p>(A) Probability of data if null true.</p> <p>(B) Probability if alternative true.</p> <p>(C) Significance level <math>\alpha</math>.</p> <p>(D) Sample size.</p>	<p>प्र25. p-मान दर्शाता है ...</p> <p>(A) यदि शून्य परिकल्पना सत्य है तो डेटा प्राप्त होने की संभावना</p> <p>(B) यदि वैकल्पिक परिकल्पना सत्य है तो संभावना</p> <p>(C) महत्व स्तर <math>\alpha</math></p> <p>(D) नमूना आकार</p>
<p>Q26. Which is NOT a component of a box plot?</p> <p>(A) Median (B) Quartiles (C) Mean (D) Outliers</p>	<p>प्र26. बॉक्स प्लॉट का कौन-सा घटक नहीं है?</p> <p>(A) माध्यिका (B) चतुर्थक (C) औसत (D) आउटलायर</p>
<p>Q27. A skewed histogram indicates ...</p> <p>(A) Equal distribution.</p> <p>(B) Symmetry.</p> <p>(C) Long tail on one side.</p> <p>(D) Normal distribution.</p>	<p>प्र27. विकृत (skewed) हिस्टोग्राम से संकेत मिलता है ...</p> <p>(A) समान वितरण</p> <p>(B) सममितीय वितरण</p> <p>(C) एक ओर लंबी पूँछ</p> <p>(D) सामान्य वितरण</p>
<p>Q28. To test difference between two means, use ...</p> <p>(A) Correlation</p> <p>(B) Regression</p> <p>(C) T-test</p> <p>(D) Chi-square</p>	<p>प्र28. दो समूहों के औसत में अंतर जाँचने हेतु कौन-सा परीक्षण उपयोग करेंगे?</p> <p>(A) सहसंबंध</p> <p>(B) रिग्रेशन</p> <p>(C) टी-परीक्षण</p> <p>(D) काई-वर्ग</p>
<p>Q29. Purpose of a scatter plot is ...</p> <p>(A) Show distribution of single variable.</p> <p>(B) Display relationship between two variables.</p> <p>(C) Represent categorical data.</p> <p>(D) Summarize with a single value.</p>	<p>प्र29. स्कैटर प्लॉट का उद्देश्य है ...</p> <p>(A) एक ही चर का वितरण दिखाना</p> <p>(B) दो चर के बीच संबंध प्रदर्शित करना</p> <p>(C) वर्गीकृत डेटा दिखाना</p> <p>(D) एक मान से सारांश देना</p>

<p>Q30. Which value is a sample statistic (e.g., sample mean)?</p> <p>(A) Population parameter          (B) Sample parameter          (C) Sample statistic          (D) Population mean</p>	<p>प्र०. नमूने का सारांश माप (जैसे नमूना औसत) क्या कहलाता है?</p> <p>(A) जनसंख्या पैरामीटर          (B) नमूना पैरामीटर          (C) नमूना सांखिकी          (D) जनसंख्या औसत</p>
<p>Q31. Control charts &amp; procedures in descriptive statistics are classified as ...</p> <p>(A) Behavioural tools          (B) Serial tools          (C) Industry statistics          (D) Statistical tools</p>	<p>प्र१. वर्णनात्मक सांखिकी में प्रयुक्त नियंत्रण चार्ट व प्रक्रियाएँ किस वर्ग में आती हैं?</p> <p>(A) व्यवहारिक उपकरण          (B) क्रमिक उपकरण          (C) औद्योगिक सांखिकी          (D) सांखिकीय उपकरण</p>
<p>Q32. Which of the following is a measure of dispersion?</p> <p>(A) Mean (B) Median (C) Range (D) Mode</p>	<p>प्र२. निम्न में से कौन-सा प्रसरण का माप है?</p> <p>(A) औसत (B) माध्यिका (C) परास (Range) (D) बहुलक</p>
<p>Q33. Skewness refers to ...</p> <p>(A) Peakedness          (B) Spread around mean          (C) Symmetry of distribution          (D) Average value</p>	<p>प्र३. विकृति (Skewness) का अर्थ है</p> <p>(A) शिखरता          (B) माध्य के चारों ओर फैलाव          (C) वितरण की असमिति/सममिति          (D) औसत मान</p>
<p>Q34. Kurtosis refers to ...</p> <p>(A) Symmetry          (B) Spread around mean          (C) Peakedness of distribution          (D) Average value</p>	<p>प्र४. कर्टोसिस दर्शाता है ...</p> <p>(A) सममिति          (B) माध्य के चारों ओर फैलाव          (C) वितरण की शिखरता          (D) औसत मान</p>

<p>Q35. A high p-value in Chi-square indicates ...</p> <p>(A) Strong evidence against <math>H_0</math>      (B) Weak evidence against <math>H_0</math>      (C) Significant difference present      (D) High correlation</p>	<p><b>प्र०३५. काई-वर्ग परीक्षण में उच्च p-मान</b> यह दर्शाता है ...</p> <p>(A) शून्य परिकल्पना के विरुद्ध प्रबल साक्ष्य      (B) शून्य परिकल्पना के विरुद्ध कमजोर साक्ष्य      (C) प्रेक्षित व अपेक्षित आवृत्तियों में महत्वपूर्ण अंतर      (D) उच्च सहसंबंध</p>
<p>Q36. Which type of RNA is smallest?</p> <p>(A) rRNA (B) mRNA (C) hnRNA (D) tRNA</p>	<p><b>प्र०३६. आकार में सबसे छोटी RNA कौन-सी है?</b></p> <p>(A) rRNA (B) mRNA (C) hnRNA (D) tRNA</p>
<p>Q37. SARS-CoV-2 positive antibody &amp; antigen serology indicates ...</p> <p>(A) No infection      (B) Infection + immune response      (C) Infection but no response      (D) No vaccination</p>	<p><b>प्र०३७. SARS-CoV-2 की एंटीबॉडी व एंटिजन दोनों पॉज़िटिव होने का अर्थ ...</b></p> <p>(A) संक्रमण नहीं      (B) संक्रमण + प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया      (C) संक्रमण पर प्रतिक्रिया नहीं      (D) टीकाकरण नहीं</p>
<p>Q38. LDH isoenzyme elevated in dermatomyositis:</p> <p>(A) LDH2 (B) LDH3 (C) LDH4 (D) LDH5</p>	<p><b>प्र०३८. डर्माटोमायोसाइटिस में बढ़ा हुआ LDH आइसोएंजाइम कौन-सा है?</b></p> <p>(A) LDH2 (B) LDH3 (C) LDH4 (D) LDH5</p>
<p>Q39. Which is NOT a kidney function test marker?</p> <p>(A) GFR (B) LDL (C) BUN (D) Creatinine</p>	<p><b>प्र०३९. निम्न में से कौन-सा गुर्दा कार्य परीक्षण मार्कर नहीं है?</b></p> <p>(A) GFR (B) LDL (C) BUN (D) क्रिएटिनिन</p>
<p>Q40. Common anticoagulant in hematology:</p> <p>(A) EDTA      (B) Heparin      (C) Sodium citrate      (D) Sodium azide</p>	<p><b>प्र०४०. हीमेटोलॉजी में प्रचलित एंटीकॉग्युलेंट है ...</b></p> <p>(A) EDTA      (B) हेपरिन      (C) सोडियम साइट्रेट      (D) सोडियम एजाइड</p>

<p>Q41. Test to differentiate Staphylococcus vs Streptococcus:</p> <p>(A) Catalase          (B) Coagulase          (C) Hydrolase          (D) Oxidase</p>	<p>प्र४१. स्टैफिलोकॉक्स व स्ट्रैपटोकॉक्स में अंतर करने वाला परीक्षण ...</p> <p>(A) कैटालेज़          (B) कोएगुलेज़          (C) हाइड्रोलाज़          (D) ऑक्सीडेज़</p>
<p>Q42. “Bad cholesterol” is ...</p> <p>(A) HDL (B) LDL (C) Triglyceride (D) VLDL</p>	<p>प्र४२. “खराब कोलेस्ट्रॉल” किसे कहते हैं?</p> <p>(A) HDL (B) LDL (C) ट्राइग्लिसराइड          (D) VLDL</p>
<p>Q43. Average size of a nucleosome:</p> <p>(A) 1 nm          (B) 100 Å          (C) 0.01 nm          (D) 10 Å</p>	<p>प्र४३. न्यूक्लियोसोम का औसत आकार है ...</p> <p>(A) 1 nm (B) 100 Å (C) 0.01 nm (D) 10 Å</p>
<p>Q44. Km equals substrate concentration at ...</p> <p>(A) Vmax          (B) Vmax/2          (C) 2×Vmax          (D) 0</p>	<p>प्र४४. Km वह सब्स्ट्रेट एकाग्रता है जब प्रतिक्रिया वेग ...</p> <p>(A) Vmax          (B) Vmax/2          (C) 2× Vmax          (D) 0</p>
<p>Q45. In SDS-PAGE, buffer commonly contains ...</p> <p>(A) Glycine (B) Lysine (C) Proline (D) Alanine</p>	<p>प्र४५. SDS-PAGE बफर में सामान्यतः क्या होता है?</p> <p>(A) ग्लाइसिन (B) लाइसिन (C) प्रोलिन (D) ऐलैनिन</p>
<p>Q46. PCR amplification requires which ion?</p> <p>(A) Ca<sup>2+</sup> (B) Na<sup>+</sup> (C) Mg<sup>2+</sup> (D) K<sup>+</sup></p>	<p>प्र४६. PCR में आवश्यक आयन है ...</p> <p>(A) Ca<sup>2+</sup> (B) Na<sup>+</sup> (C) Mg<sup>2+</sup> (D) K<sup>+</sup></p>

<p>Q47. Histones are rich in ...</p> <p>(A) Lysine &amp; Arginine          (B) Histidine &amp; Methionine          (C) Glycine          (D) Proline</p>	<p>प्र47. हिस्टोन किन अमीनो अम्लों में समृद्ध होते हैं?</p> <p>(A) लाइसिन व आर्जिनिन          (B) हिस्टिडिन व मेथिओनिन          (C) ग्लाइसिन          (D) प्रोलिन</p>
<p>Q48. Gene suppression in bacteria: repressor binds to ...</p> <p>(A) Operator          (B) Promoter          (C) Enhancer          (D) Polymerase</p>	<p>प्र48. बैक्टीरिया में जीन दमन हेतु रिप्रेसर कहाँ बाँधता है?</p> <p>(A) ऑपरेटर          (B) प्रोमोटर          (C) एन्हांसर          (D) पॉलिमरेज़</p>
<p>Q49. DNA fragment migrating slowest on agarose gel:</p> <p>(A) 100 bp linear          (B) 100 bp circular          (C) 100 kb linear          (D) 1 kb circular</p>	<p>प्र49. एगरोज़ जैल में सबसे धीमे चलने वाला DNA अंशः</p> <p>(A) 100 bp रैखिक          (B) 100 bp वृत्ताकार          (C) 100 kb रैखिक          (D) 1 kb वृत्ताकार</p>
<p>Q50. ATP yield from full oxidation of one glyceraldehyde-3-phosphate:</p> <p>(A) 36          (B) 12          (C) 18          (D) 24</p>	<p>प्र50. एक ग्लिसरएल्डिहाइड-3-फॉस्फेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं?</p> <p>(A) 36          (B) 12          (C) 18          (D) 24</p>

<p>Q51. Kranz anatomy is characterized by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Bundle sheath with agranal, mesophyll with granal chloroplasts</li> <li>(B) Presence of cuticle only</li> <li>(C) Absence of vascular bundles</li> <li>(D) Thickened epidermis</li> </ul>	<p>प्र५१. क्रैंज एनाटॉमी की विशेषता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) बंडल शीथ में अग्रेनल व मेसोफिल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति</li> <li>(B) केवल क्यूटिकल की उपस्थिति</li> <li>(C) संवहनी बंडलों की अनुपस्थिति</li> <li>(D) मोटी एपिडर्मिस</li> </ul>
<p>Q52. Podocytes are located in ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Glomerulus</li> <li>(B) Loop of Henle</li> <li>(C) PCT</li> <li>(D) DCT</li> </ul>	<p>प्र५२. पोडोसाइट कहाँ पाए जाते हैं?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) ग्लोमेरुलस</li> <li>(B) लूप ऑफ हेनले</li> <li>(C) PCT</li> <li>(D) DCT</li> </ul>
<p>Q53. 3-month-old with ambiguous genitalia – test for testis presence:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) AMH</li> <li>(B) FSH</li> <li>(C) Testosterone</li> <li>(D) HCG</li> </ul>	<p>प्र५३. 3 माह के शिशु में अनिश्चित जननांग – वृषण की उपस्थिति पता करने वाली जाँच ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) AMH</li> <li>(B) FSH</li> <li>(C) टेस्टोस्टेरोन</li> <li>(D) HCG</li> </ul>
<p>Q54. Thylakoid membranes are rich in ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Galactolipids</li> <li>(B) Phospholipids</li> <li>(C) Glycoproteins</li> <li>(D) Sphingolipids</li> </ul>	<p>प्र५४. थालाकोइड झिल्ली में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) गैलेक्टोलिपिड्स</li> <li>(B) फॉस्फोलिपिड्स</li> <li>(C) ग्लाइकोप्रोटीन</li> <li>(D) स्फिंगोलिपिड्स</li> </ul>

<p>Q55. Relaxosome-Transfersome complex is seen in ...</p> <p>(A) Conjugation          (B) Transformation          (C) Transduction          (D) Transcription</p>	<p>प्र०55. रिलैक्ससोम-ट्रांसफेरोसोम परिसर किस प्रक्रिया में पाया जाता है?</p> <p>(A) कॉनजुगेशन          (B) ट्रांसफॉर्मेशन          (C) ट्रांसडक्शन          (D) ट्रांसक्रिप्शन</p>
<p>Q56. Tumor suppressor gene involved in DNA repair &amp; apoptosis:</p> <p>(A) p53          (B) PARP          (C) Cyclin D1          (D) MAPK</p>	<p>प्र०56. DNA मरम्मत व अपोएसिस में संलग्न ट्यूमर सप्रेसर जीन ...</p> <p>(A) p53          (B) PARP          (C) Cyclin D1          (D) MAPK</p>
<p>Q57. Primary excitatory neurotransmitter in CNS:</p> <p>(A) Glutamate          (B) Dopamine          (C) GABA          (D) Serotonin</p>	<p>प्र०57. CNS में मुख्य उत्क्षेपक न्यूरोट्रांसमीटर है ...</p> <p>(A) ग्लूटामेट          (B) डोपामिन          (C) GABA          (D) सेरोटोनिन</p>
<p>Q58. Organisms indicating SO<sub>2</sub> air pollution:</p> <p>(A) Lichens          (B) Mosses          (C) Algae          (D) Fungi</p>	<p>प्र०58. SO<sub>2</sub> वायु प्रदूषण का संकेत देने वाले जीव ...</p> <p>(A) लाइकेन्स          (B) मॉस          (C) शैवाल          (D) कवक</p>

<p>Q59. Most advanced algae group evolutionarily:</p> <p>(A) Rhodophyta          (B) Cyanophyta          (C) Chlorophyta          (D) Phaeophyta</p>	<p>प्र०५९. विकास की दृष्टि से सबसे उन्नत शैवाल समूह कौन-सा है?</p> <p>(A) रोडोफाइटा          (B) सायनोफाइटा          (C) क्लोरोफाइटा          (D) फैओफाइटा</p>
<p>Q60. A/T-rich regions in eukaryotes are in ...</p> <p>(A) Satellite DNA          (B) Telomere          (C) Centromere          (D) Exon</p>	<p>प्र०६०. यूकैरियोट में A/T-समृद्ध क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं?</p> <p>(A) सैटेलाइट DNA          (B) टेलोमियर          (C) सेंट्रोमियर          (D) एक्सॉन</p>
<p>Q61. In ion exchange chromatography, separation is based on ...</p> <p>(A) Molecular size          (B) Charge on molecule          (C) Hydrophobicity          (D) Solubility</p>	<p>प्र०६१. आयन-आदान-प्रदान क्रोमैटोग्राफी में बायोमोलेक्यूल का पृथक्करण किस पर आधारित है?</p> <p>(A) आणविक आकार          (B) अणु का आवेश          (C) हाइड्रोफोबिसिटी          (D) घुलनशीलता</p>
<p>Q62. Technique best for separating proteins by isoelectric point:</p> <p>(A) Gel filtration          (B) Affinity chromatography          (C) Ion exchange chromatography          (D) Isoelectric focusing</p>	<p>प्र०६२. प्रोटीन को उनके आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु पर पृथक करने हेतु सर्वोत्तम तकनीक ...</p> <p>(A) जेल फिल्ट्रेशन          (B) एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी          (C) आयन-आदान-प्रदान क्रोमैटोग्राफी          (D) आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग</p>

<p>Q63. Atomic absorption spectrometry estimates ...</p> <p>(A) DNA concentration          (B) Serum enzyme activity          (C) Trace metals (Ca, Mg, Zn)          (D) Blood urea</p>	<p>प्र63. एटॉमिक ऐब्जार्षन स्पेक्ट्रोमेट्री मुख्यतः किसका आकलन करती है?</p> <p>(A) DNA सांद्रता          (B) सीरम एंजाइम सक्रियता          (C) सूक्ष्म धातुएँ (Ca, Mg, Zn)          (D) रक्त यूरिया</p>
<p>Q64. Protein tumor marker associated with colon cancer:</p> <p>(A) CA-19-9                    (B) CEA          (C) AFP                        (D) PSA</p>	<p>प्र64. कोलन कैंसर से सम्बद्ध प्रोटीन ट्यूमर मार्कर है ...</p> <p>(A) CA-19-9 (B) CEA (C) AFP (D) PSA</p>
<p>Q65. Alpha-fetoprotein (AFP) is classified as ...</p> <p>(A) Hormonal marker          (B) Oncofetal antigen          (C) Carbohydrate antigen          (D) Enzymatic marker</p>	<p>प्र65. अल्फा-फेटोप्रोटीन (AFP) को किस श्रेणी में रखा जाता है?</p> <p>(A) हॉर्मोनल मार्कर          (B) ऑन्कोफीटल एंटीजन          (C) कार्बोहाइड्रेट एंटीजन          (D) एंजाइमेटिक मार्कर</p>
<p>Q66. Qualitative research design used in medical studies ...</p> <p>(A) Cross-sectional study          (B) Experimental study          (C) Ethnographic study          (D) Longitudinal cohort</p>	<p>प्र66. चिकित्सा अध्ययनों में प्रयुक्त गुणात्मक डिज़ाइन ...</p> <p>(A) क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन          (B) प्रायोगिक अध्ययन          (C) नृवंशविज्ञान अध्ययन          (D) अनुदैर्घ्य कोहॉर्ट</p>

<p>Q67. Centrifuge at 5000 rpm, r = 10 cm; RCF =?</p> <p>(A) 2795 g          (B) 5690 g          (C) 2515 g          (D) 1120 g</p>	<p>प्र० 67. 5000 rpm, त्रिज्या 10 cm वाले सेंट्रीफ्यूज का RCF है ...</p> <p>(A) 2795 g          (B) 5690 g          (C) 2515 g          (D) 1120 g</p>
<p>Q68. Spectrophotometry: A = 0.301 → Transmittance %?</p> <p>(A) 25 %          (B) 50 %          (C) 75 %          (D) 90 %</p>	<p>प्र० 68. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में A = 0.301 हो तो ट्रांसमीटरेंस (%) कितना होगा?</p> <p>(A) 25 %          (B) 50 %          (C) 75 %          (D) 90 %</p>
<p>Q69. Serum glucose 90 mg/dL → mmol/L?</p> <p>(A) 3.0 mmol/L          (B) 5.0 mmol/L          (C) 7.0 mmol/L          (D) 10.0 mmol/L</p>	<p>प्र० 69. सीरम ग्लूकोज़ 90 mg/dL को mmol/L में बदलें ...</p> <p>(A) 3.0 mmol/L          (B) 5.0 mmol/L          (C) 7.0 mmol/L          (D) 10.0 mmol/L</p>
<p>Q70. Main purpose of a pilot study is to ...</p> <p>(A) Obtain definitive large-scale results.          (B) Assess feasibility &amp; refine methods.          (C) Secure funding only.          (D) Publish quickly.</p>	<p>प्र० 70. पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है ...</p> <p>(A) पूर्ण पैमाने पर निश्चित परिणाम पाना          (B) बड़ी योजना की व्यवहार्यता जाँचना व विधि सुधारना          (C) केवल वित्त पोषण प्राप्त करना          (D) शीघ्र प्रकाशन करना</p>